

Regd. Off. : 9, D. D. A. Market, Katwaria Sarai, Opposite Qutab Hotel, New Delhi-110 016  
Works : 57/1, Site-IV, Industrial Area, Sahibabad-201 010, Distt. Ghaziabad (U.P.) Ph.: 0120-4333427, 4167628  
Fax : 91-120-4167630 Website : www.cranexltd.com Email : cranex1@yahoo.com, info@cranexltd.com

Date: 15<sup>th</sup> November, 2024

To,  
The Secretary  
Corporate Relationship Department  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai-400 001

Ref. Scrip Code: 522001- CRANEX LIMITED  
ISIN: INE608B01010

**SUB: INTIMATION UNDER REGULATION 47 OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS & DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015**

Dear Sir/Madam,

In pursuant to Regulation 47(1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find the enclosed copies of Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the second quarter & half year ended on 30<sup>th</sup> September, 2024 published in newspaper viz. Financial Express (English Newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper) on 15<sup>th</sup> Day of November, 2024.

Kindly take the same on your records.

Thanking You

Yours Faithfully

For Cranex Limited



Heena Sharma  
Company Secretary and Compliance Officer  
Membership Number – A65512



Encl: As above

**Form No. INC-26**  
(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)  
Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi  
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

**AND**  
In the matter of **ZENSHO FOOD INDIA PRIVATE LIMITED**  
(CIN: U52209DL2019FTC347144)  
having its Registered Office at 3rd Floor, Vardhman Trade Centre, Lala Lajpat Rai Rd, Nehru Place, New Delhi-110019

Applicant Company / Petitioner hereby gives to the General Public that the company proposes to make an application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 31st October, 2024 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below:-

3rd Floor, Vardhman Trade Centre, Lala Lajpat Rai Rd, Nehru Place, New Delhi-110019  
For & on behalf of **ZENSHO FOOD INDIA PRIVATE LIMITED**  
**YUYA ISHIKAWA**  
(DIRECTOR)  
DIN: 09804532

Date: 14.11.2024  
Place: New Delhi

**NEW LIGHT APPARELS LIMITED**  
CIN:- L74899DL1995PLC064005, GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden Delhi-110027.

**Statement of Unaudited Standalone Result for the Quarter / Period ended 30th September, 2024**  
(₹ In Lakh except as stated otherwise)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2024 (Un-Audited)	30.06.2024 (Un-Audited)	30.09.2023 (Un-Audited)	30.06.2023 (Un-Audited)	
1	Income from operations					
	Net sales / Income from operations	542.38	72.05	124.16	614.43	183.48
	Other Income	-	-	0.30	-	0.36
	<b>Total</b>	<b>542.38</b>	<b>72.05</b>	<b>124.46</b>	<b>614.43</b>	<b>183.84</b>
	Expenses					
a)	Purchase of Stock in Trade	193.08	72.84	103.71	265.93	143.11
b)	(Increase) / decrease in inventories of traded goods	297.09	-27.70	9.52	269.39	14.09
c)	Employee benefit expenses	6.68	1.77	1.87	10.34	4.02
d)	Depreciation & amortizations expenses	1.04	1.02	0.80	2.06	1.57
e)	Finance Costs	.35	0.42	2.40	.77	3.47
f)	Other expenses	10.55	20.89	11.56	29.55	21.37
	<b>Total</b>	<b>508.81</b>	<b>69.24</b>	<b>129.87</b>	<b>578.04</b>	<b>187.62</b>
3	Profit / (Loss) from continuing operations Before Extraordinary Items and tax (1-2)	33.57	2.81	-5.41	36.38	-3.78
4	Provision Reversal For DTA	-	-	-	-	-
5	Profit / (Loss) from continuing operations before tax (3-4)	33.57	2.81	-5.41	36.38	-3.78
6	Provision for Tax	-	-	-	-	-
7	Net Profit / (Loss) from continuing operations (5-6)	33.57	2.81	-5.41	36.38	-4.16
8	Other Comprehensive Income					
i)	Item that will not be reclassified to statement of profit and loss	-	-	-	-	-
ii)	Tax on item that will not be reclassified to statement of profit & loss	-	-	-	-	-
iii)	Items that will not be reclassified to Profit & Loss:	-	-	-	-	-
iv)	Tax relating to items that will not be classified to Profit & Loss:	-	-	-	-	-
9	Total Comprehensive Income (7-8)	33.57	2.81	-5.41	36.38	-4.16
10	Paid up Equity Share Capital (Equity Shares of ₹ 10/- each)	782.20	782.20	219.62	782.20	219.62
	Earnings Per Share (Face Value of ₹ 10/- each)					
	Earnings Per Share from continuing operation before exceptional item (Not Annualised)					
a)	Basic	0.43	0.04	(0.25)	0.47	(0.19)
b)	Diluted	0.43	0.04	(0.25)	0.47	(0.19)

**Note :-**  
Newlight Apparels Limited has received an amount of ₹56.38 Lakhs being gross proceeds from preferential issue of equity share, Net proceeds after issue expenses in relation to such issue are proposed to be utilized and the utilization thereof are summarized as below:

**STATEMENT OF DEVIATION / VARIATION IN UTILIZATION OF FUND RAISED (₹ In Lakhs)**

Original Objects	Modified Objects, if any	Original Allocation	Modified Allocation, if any	Fund Utilised*	Amount of Deviation / Variation for the quarter according to applicable objects
To meet long term working capital needs of the Company. It is proposed by the board of directors induce additional funds by way of increasing the share capital.	None	956.38	None	956.38	None

\* All necessary intimation/approvals/explanation also taken care by the management.

For and on behalf of Board of Directors of New Light Apparels Limited  
**Sandeep Makkad**  
DIN-0112423, (Managing Director)

Place: New Delhi  
Date: 13.11.2024

**GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED**  
(Formerly Known as Poonawalla Housing Finance Ltd.)  
Registered Office: 602, 6th Floor, Zero One IT Park, Sr. No.79/1, Ghorpadi, Mundhwa Road, Pune-411036.

**DEMAND NOTICE**  
Under Section 13(2) of The SARFAESI Act 2002

You the below mentioned Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantors have availed Home Loans/ Loans against property facility (ies) by mortgaging your immovable properties from Grihum Housing Finance Limited (formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited) as the name Poonawalla Housing Finance Limited changed to Grihum Housing Finance Limited With effect from 17 Nov 2023 (Previously Known as Magma Housing Finance Limited and originally incorporated with the name of GE Money Housing Finance Public Limited Company) hereinafter referred as Secured Creditor. You defaulted in repayment and therefore, your loan/s was classified as Non-Performing Assets. A Demand Notice under section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of security Interest act 2002 for the recovery of the outstanding dues sent on last known addresses however the same have returned un-served. Hence the contents of which are being Published here with as per section 13(2) of the act read with Rule 3(1) of the security interest (Enforcement) Rules, 2002 and as by way of alternate service upon You. Details of the Borrowers, Co-Borrowers, Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent Under section 13(2) and amount claimed there under are give as under

Sr. No.	Name of the Borrower, Co-Borrower, Guarantor & Loan Amount	Description of Property	Demand Notice Date	Amount in Demand Notice (Rs.)
1	Sachin Gautam, Laxmi Gautam, Sanjay Kumar Gautam Loan Amount: Rs.12,00,000/- Loan No.HF0399H19100347	All That Piece And Parcel Of The Residential House No. 05, Area Measuring 100 Sq. Yards, Out Of Kharsa No. 538 & 539, Situated In The Village Chhapraula, Pargana & Tehsil Dadr, Dist. Gautam Budh Nagar, U.P.; (Herein After Called The Said Property) Boundaries: As Per Sale Deed Dated 24.02.2016; East: Plot No. 6, West: Plot No.4, North: Rasta 22ft. Wide, South: Others Plot.	07/11/2024	Rs.10,65,343/- (Rupees Ten Lakh SixtyFive Thousand Three Hundred FortyThree Only) together with further interest @ 9.72% p.a till repayment.
2	Jyoti Aggarwal, Susheel Aggarwal, Sandeep Gupta Loan Amount: Rs.9,30,000/- Loan No. HF0399H20101044	All That Piece And Parcel Of Residential Property Flat No. SF-4, On Second Floor, Area Measuring 45 Sq. Yards, On Build-Up Plot No. 59, Area Measuring 200 Sq. Yds. I.E. 167.22 Sq. Mtrs., Out Of Kharsa No. 426mi, Situated In The Residential Color., Of Sahkari Nagar, Village Mehruhi, Pargana Dasna, Tehsil And Distt. Ghaziabad, U.P. (Hereinafter Called The Said Property). Particularly Mentioned In Sale Deed Executed. Boundaries As Under: East: Others Property, West-Plot No.60, North: Road 20 Ft. Wide, South: Plot No.64	07/11/2024	Rs.7,32,938/- (Rupees Seven Lakh ThirtyTwo Thousand Nine Hundred ThirtyEight Only) together with further interest @ 14.5% p.a till repayment.
3	Anil Kumar, Munni Devi Loan Amount: Rs.9,55,000/- Loan No: HL0039910000005002728	All That Piece And Parcel Of The Residential Flat No. FF-02, On First Floor, Lig Back Side Built On Plot No. F-22, Area Measuring 160 Sq. Yds., 133.77 Sq. Mtrs., Situated At Sit Vaid Vihar In The Area Of Village Loni Pargana & Tehsil Loni District Ghaziabad, U.P. (Hereinafter Called The Said Property). Boundaries As Per Sale Deed Dated 23.09.2016. East: Plot No.F-35, West: Road 9 Mt. Wide, North: Plot No.F-23, South: Plot No.S-21, Admeasuring Area: 160 Sq.Yds.	07/11/2024	Rs.10,24,378/- (Rupees Ten Lakh TwentyFour Thousand Three Hundred SeventyEight Only) together with further interest @ 16.6% p.a till repayment.
4	Pankaj Verma, Renu Verma Loan Amount: Rs.10,50,000/- Loan No: LAP0303000000005000673	All That Piece And Parcel Of The One Residential House Bearing No. 90, Land Area Measuring 50.517 Sq. Mts., Situated At Mahala Banjaran, Muzaffarnagar, Pargana, Tehsil & Distt. Muzaffarnagar, Particularly Mentioned In Sale Deed Executed. Boundaries: East: 14 Ft 1.5 Inch / Raasta, North: 38 Ft 5 Inch/ House Of Triok Chaud, West: 14 Ft 5 Inch/ House No.90, South: 38 Ft 5 Inch/ Dharamshala. Admeasuring Area: 50.517 Sq.Mts.	07/11/2024	Rs.11,77,205/- (Rupees Eleven Lakh SeventySeven Thousand Two Hundred Five Only) together with further interest @ 15.75% p.a till repayment.
5	Azad Ali, Isarana Loan Amount: Rs.15,50,000/- Loan No: LAP0605200000005000874	All That Piece And Parcel Of The One Residential Plot, Land Area Measuring 113.22 Sq.Mts., situated at Village Ameen Nagar Sarai Mohalla Nai Basti, Under Limit Nagar Panchayat, Ameen Nagar Sarai, Pargana, Tehsil & Distt. Baghpat. Boundaries: East: 32.5 Ft/ Plot, West: 32.5 Ft/ Raasta, North: 39 Ft/ House of Sheru, South: 36 Ft/ Plot of Seller. Land Area Measuring: 113.22 Sq.Mts	07/11/2024	Rs.17,05,114/- (Rupees Seventeen Lakh Five Thousand One Hundred Fourteen Only) together with further interest @ 15.5% p.a till repayment.
6	Mantu, Pinki Loan Amount: Rs.7,80,000/- Loan No: LAP0605200000005035632	All That Piece And Parcel Of One Residential House In Kharsa No. 1215, Land Area Measuring 56.08 Sq. Mts., Situated At Village Dhanor Sarai Nagar, Tehsil & Distt. Baghpat, Particularly Mentioned In Sale Deed Executed. Boundaries: East: House Of Braj Pal, West: House Of Islam, North: House Of Kiran, South: Raasta 15 Ft Wide.	07/11/2024	Rs.8,61,452/- (Rupees Eight Lakh SixtyOne Thousand Four Hundred FiftyTwo Only) together with further interest @ 16% p.a till repayment.
7	Amir, Tarifa Loan Amount: Rs.9,00,000/- Loan No: HL0064910000005017436	All That Piece And Parcel Of The Plot No. 411, Area Measuring 100 Sq.Yds., Out Of Kharsa No. 10, Situated At Village Hakikatpur Uri Khudabas, In The Abadi Of Block-E, Sudhir Enclave Pargana Loni, Tehsil & Distt. Ghaziabad, U.P. (Herein After Referred To As The Said Property). Particularly Mentioned In Sale Deed Executed. Boundary As Per: East: Rasta 20 Ft. Wide, West: Rasta 10 Ft. Wide, North: Plot No.327, South: Plot No. 412.	07/11/2024	Rs.9,67,807/- (Rupees Nine Lakh SixtySeven Thousand Eight Hundred Seven Only) together with further interest @ 13% p.a till repayment.
8	Rakesh, Anita Loan Amount: Rs.20,00,000/- Loan No: HL0245H9100997	All That Piece And Parcel Of The Freehold Residential Flat No. FF-2 On First Floor Admeasuring Built-Up Area 54 Sq.Ft. Built On Plot No.179 Falling Under Kharsa No.301 Situated At Akash Vihar Colony (Akashwani) In Village Sadulabad Pargana & Tehsil Loni Distt. Ghaziabad (U.P.), "The Said Property" Boundaries Of Land/Flat/Plot As Under: East: Vacant Plot, West: Vacant Plot, North: Other Property, South: 30 Ft. Wide Road.	07/11/2024	Rs.17,80,176/- (Rupees Seventeen Lakh Eighty Thousand One Hundred SeventySix Only) together with further interest @ 12.5% p.a till repayment.
9	Mohd Mansoor, Rukhsana Khatoun, Maimun Nisha Loan Amount: Rs.6,23,600/- Loan No: HL0065910000005032980	All That Piece And Parcel Of Part Of Residential Plot No. E-486, Area Measuring 50 Sq. Yds., I.E., 41.80 Sq. Mtrs., Out Of Kharsa No. 10, Situated At Residential Colony, Village Hakikatpur Alias Khudabas, Pargana & Tehsil Loni, Distt. Ghaziabad, U.P. (Hereinafter Called The Said Property). Particularly Mentioned In Sale Deed Executed. Boundaries: East: Plot No.E-485, West: Plot No.E-487, North: Rasta 20 Ft., South: Plot Of Nikhat Parveen Admeasuring Area: 50 Sq.Yds.	07/11/2024	Rs.6,59,410/- (Rupees Six Lakh FiftyNine Thousand Four Hundred Ten Only) together with further interest @ 13% p.a till repayment.
10	Manoj Kumar, Shashi Loan Amount: Rs.14,00,000/- Loan No: LAP0400000000005000829	All That Piece And Parcel Of The Freehold Residential House Built On Plot Admeasuring Area 500 Sq. Yd., (418.05 Sq. Mtr.) Falling Under Kharsa No. 604 Situated At Village Bhanu, Tehsil Sikandrabad Distt. Bulandshahr (U.P.), Hereinafter Referred To As The "Said Property". Particularly Mentioned In Sale Deed Executed. Boundaries Of The Property: East: Plot Of Mange Ram, West: Plot Of Khadak Singh, North: Nala & 10 Ft. Wide Road, South: Plot Of Nutan	07/11/2024	Rs.15,47,138/- (Rupees Fifteen Lakh FortySeven Thousand One Hundred ThirtyEight Only) together with further interest @ 17% p.a till repayment.
11	Desh Bandhu Garg, Riyansh Garg, Kavita Garg Loan Amount: Rs.40,00,000/- which includes Rs.10,00,000/- vide Loan Account bearing LAP0244200000005038744 and Rs.30,00,000/- vide a loan account bearing no HL0024410000005011906	All That Piece And Parcel Of The Built Up First Floor Without Roof And Terrace Rights, Bearing The Property No.Y-12 Old No.1589-E/2-A, For Area Measuring 79.43 Sq. Mtr. (95 Sq. Yards), Forming Part Of The Kharsa No. 335 And 337, Together With Construction Built There On With Rights Upto The Ceiling Level, With Common Entrance, Stairs And Passage From Ground Floor, With Common Rights To Go To On Top Floor For The maintenance Of Water Tank, Etc., With Common Parking On Ground Floor, With Undivided Proportionate Indivisible And Impartable Ownership Rights Of The Land Under The Property, Situated At The Abadi Of Naveen Shahdara, In The Area Of Village Uldhanpur, Ilqaq Shahdara, Delhi-110032,, (Hereinafter Referred To As The Scheduled Property Or The Said Property) And Bound As Under- C, East - Property No. Y-11, West- 25 Ft. Road, North- 23 Ft. Road, South- Unit Of Others And Entrance	07/11/2024	Loan No: LAP0244200000005038744 Rs.10,67,483/- (Rupees Ten Lakh SixtySeven Thousand Four Hundred EightyThree Only) together with further interest @ 15.5% p.a till repayment. Loan No: HL0024410000005011906 Rs.30,42,539/- (Rupees Thirty Lakh FortyTwo Thousand Five Hundred ThirtyNine Only) together with further interest @ 12.5% p.a till repayment.
12	Sandeep, Babita Loan Amount: Rs.15,00,000/- which includes Rs. 350000/- vide Loan Account bearing LAP0649200000005020541 and Rs.11,50,000/- vide a loan account bearing no HL0064920000005013009	All That Piece And Parcel Of The Freehold Residential House No. 475/7, Area Measuring 66 Sq. Yards, Out Of Kharsa No. 274, Situated At (Near Nand Gram Mariam Hospital), Village Gukana, Pargana Loni, Tehsil & District, Ghaziabad (U.P.). (Hereinafter Referred To As "Said Property" (Herein After Referred To As The Said Property). Particularly Mentioned In Sale Deed Executed. Boundary As Per: East- Other Property, West: Other Property, North: Road 11 Feet Wide South: Other Property	07/11/2024	Loan No: LAP0649200000005020541 Rs. 377089 (Rupees Three Lakh SeventySeven Thousand EightyNine Only) together with further interest @ 13.5% p.a till repayment. Loan No: HL0064920000005013009 Rs.12,31,659/- (Rupees Twelve Lakh ThirtyOne Thousand Six Hundred FiftyNine Only) together with further interest @ 12% p.a till repayment.
13	Yogendra Sharma, Ramanvish Sharma, Nitoo Sharma, Munni Sharma Loan Amount: Rs.16,40,000/- which includes Rs. 1000000/- vide Loan Account bearing HM0245H16100007 and Rs.6,40,000/- vide a loan account bearing no HL0245H17100041	All That Piece And Parcel Of The Residential Plot Area Measuring 164 Sq. Yds., Out Of Kharsa No. 542d, Situated At Village Santhali, Pargana & Tehsil Dadr, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P.; (Herein After Referred To As The Said Property). Boundary As Per- East: House Of Jatan, West: Rasta 14 Ft. Wide North: House Of Priyanka & Mahaveer, South: Land Of Dharam Singh.	07/11/2024	Loan No: HM0245H16100007 Rs. 787668 (Rupees Seven Lakh EightySeven Thousand Six Hundred SixtyEight Only) together with further interest @ 16.300000000000001% p.a till repayment. Loan No: HL0245H17100041 Rs.5,65,874/- (Rupees Five Lakh SixtyFive Thousand Eight Hundred SeventyFour Only) together with further interest @ 14.8% p.a till repayment.

You the Borrowers/ and Co-Borrowers/ Guarantors are therefore called upon to make payment of the above-mentioned demanded amount with further interest as mentioned hereinabove in full with 60 Days of this notice failing upon the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above mentioned securities/ies. Please note that as per 13(13) of the said act, you are in the meanwhile, Restraind from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise without my consent

Place: Delhi  
Dated: 15-11-2024

Sd/- Authorised Officer  
Grihum Housing Finance Limited, (Formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited)

**MADHAV MARBLES AND GRANITES LIMITED**  
CIN:L14101RJ1980PLC004903  
Address: First Floor, Mumal Towers, 16, Saheli Marg, Udaipur - 313001, Web: [www.madhavmarbles.com](http://www.madhavmarbles.com), Mail: [investor.relations@madhavmarbles.com](mailto:investor.relations@madhavmarbles.com)

**Statement of Standalone and Consolidated Un-audited Results for the quarter and period ended September 30, 2024** (Rs. In Lakhs)

Particulars	Standalone					Consolidated					
	Quarter ended		Period ended		Year ended	Quarter ended		Period ended		Year ended	
	30/9/2024	30/6/2024	30/9/2023	30/6/2023	31/3/2024	30/9/2024	30/6/2024	30/9/2023	30/6/2023	31/3/2023	31/3/2024
Total Income	735.77	1163.33	1174.48	1899.10	2378.18	4468.79	714.15	1117.79	1155.86	1831.94	2328.40
Net Profit for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	5.03	55.83	(44.30)	60.86	21.52	13.79	(32.91)	7.75	(111.83)	(25.16)	(85.55)
Net Profit for the period before tax after Exceptional and/or Extraordinary items	5.03	55.83	(44.30)	60.86	21.52	13.79	(32.91)	7.75	(111.83)	(25.16)	(85.55)
Net Profit for the period after tax after Exceptional and/or Extraordinary items	4.03	44.74	(32.79)	48.77	17.18	3.73	(33.91)	(3.36)	(100.32)	(37.27)	(89.89)
Share of Profit/Loss of associates and Joint Ventures accounted for using Equity method	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	15.02
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4.03	44.74	(32.79)	48.77	17.18	3.73	(33.91)	(3.36)	(77.32)	(37.27)	(74.87)
Equity Share Capital	894.70	894.70	894.70	894.70	894.70	894.70	894.70	894.70	894.70	894.70	894.70
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11601.92
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)											
1. Basic:	0.05	0.50	(0.37)	0.55	0.19	0.04	(0.38)	(0.04)	(0.86)	(0.42)	(0.84)
2. Diluted:	0.05	0.50	(0.37)	0.55	0.19	0.04	(0.38)	(0.04)	(0.86)	(0.42)	(0.84)

**EXPLANATORY NOTES**  
The standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and period ended September 30, 2024 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of directors at their respective meetings held on November 14, 2024  
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015  
The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges and on Company's Website.  
Place: Udaipur  
Date: 14-11-2024

For Madhav Marbles And Granites Ltd  
Sd/-  
Madhav Doshi, CEO and Managing Director (DIN: 07815416)

**इंडियन बैंक Indian Bank**

**E-AUCTION SALE NOTICE**

**ZONAL OFFICE, CIVIL LINES, MORADABAD**

**Public Notice for E-Auction Sale of Immovable Properties**

**E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002**  
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Physical/Constructive / Symbolic (whichever is applicable) possession of which has been taken by the Authorized Officer of Indian Bank (e-Allahabad Bank), Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" Basis on the below mentioned dates, for recovery of under mentioned dues & future interest, charge and cost etc as detailed below. The reserve price and EMD amount for each property has been furnished below.

**Last Date of EMD Deposit 03.10.2024 between 10 AM to 4PM**

Sl. No.	Name and Address of the Borrower/ Guarantor	Name of the Branch	Details of the Property	Outstanding dues as per 13(2) notice for which property is being sold	A) Reserve Price B) EMD C) Bid Multiplier	
1.	M/S Blue Eyes (Borrower) through Prop: Mr. Jonu Singh S/O Mr. Ganga Sharan Singh, Address: Plot No I-3, Industrial Area, Gajraula, Distt- Amroha-244235.	2.Mr. Jonu S/O Shri Ganga Sharan Singh (Proprietor, Mortgagor and Guarantor) Plot No -268, Chand Nagar, West Delhi, Delhi- 110018. Permanent Address: Village-Amheda, Tehsil-Dhanora, Distt. Amroha	BRANCH:-INDRA CHOWK, GAJRAULA, DISTRICT AMROHA	All that part and parcel of Factory Land and Building (lease hold rights for 90 years w.e.f. 2019 from UPSIDC) situated at Plot No I-3, Industrial Area-2, Gajraula Tehsil Dhanaura, Distt. Amroha, admeasuring area about 820 sq.mt., registered vide lease Deed No. 3153, Bahi No. 1, Zild No. 6385, Page No. 283-358 on 22.02.2019 with S.R Dhanora, in the name of Mr. Jonu S/O Mr. Ganga Sharan Singh. Bounded by: North: Plot No I-4, South: Plot No I-2, East: Plot No F-12, West: 18 Mtr wide Road no. 2	Rs. 2,17,38,562.00 as on 16.02.2024 + interest and other charges Date of Possession 06.05.2024 Nature of Possession Symbolic Possession	Rs. 1,65,00,000/- Rs. 16,50,000/- Rs. 50,000/- Property ID No.: IDIB716077528

**Date and Times of E- auction : 04.12.2024 at 12.00 PM to 4.00PM**

Contact Person: Authorised Officer : Sudarshan Singh Rana, Mobile No. 9522586655, 9560049759  
Indra Chowk, Gajraula, District Amroha : Branch Manager : Vikas Kumar, Mobile No. 8805943385

Bidders are advised to visit the website (1) [www.indianbank.co.in](http://www.indianbank.co.in) (2) <https://www.ebkray.in>

Bidders are advised to visit the website (<https://www.ebkray.in>) for our e auction service provider PSB Alliance Pvt. Ltd. to participate in online bid. For Technical Assistance Please call 8291220220. For Registration status and for EMD status please email to support.ebkray@psballiance.com.

For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: <https://www.ebkray.in> and for clarifications related to this portal, please contact PSB Alliance Pvt. Ltd, Contact No. 8291220220.

Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with <https://www.ebkray.in>

Date: 14.11.2024 Place: MORADABAD Authorised Officer, INDIAN BANK

**CRANEX LIMITED**  
Regd. Office: 9, DDA Market, Katwaria Sarai, New Delhi-110016 / Corporate Office:- 57/1, Industrial Area, Site IV, Sahibabad (U.P.)-201010  
Website: [www.cranexltd.com](http://www.cranexltd.com), E-mail: [investors@cranexltd.com](mailto:investors@cranexltd.com), CIN: L74899DL19

